



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 5, मंगलवार, शके 1941 अगस्त 27, 2019  
Bhadra 5, Tuesday, Saka 1941–August 27, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT  
ORDER**

**Jaipur August 14, 2019**

**F.10 (Elec) LSG/19/7393** .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipality Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipal (Election) Rules, 1994 Chief Municipal Officer Municipal Board Nathdawara has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Nathdawara. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by Chief Municipal Officer.

**By Order,**  
Ujjwal Rathore,  
**Joint Secretary to Government.**

**dk;kZy; uxjikfydk ukFk}kjk| ftyk&jktleUn ¼jkt0½**

प्रारूप- क

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि नगरपालिका नाथद्वारा के आगामी चुनाव हेतु पुर्नगठित वार्डों का अंतिम सीमांकन निम्नानुसार तैयार किये गये हैं :-

क्र.सं	नव गठित वार्डों की संख्या (40)	नवगठित वार्डों के सीमांकन का विवरण (वार्ड वार्डज)
1.	1	नाथद्वारा नगरपालिका का वार्ड न0 1 नगरपालिका सीमा के उत्तर-पश्चिम कोने बनास नदी से प्रारम्भ होकर दक्षिण में बागोल वाली पालिका सीमा होते हुए रेगर बस्ती, सतीमाता छतरी बस्ती को सम्मिलित करते हुए बागोल मुख्य रोड पर नाथद्वारा की ओर मुड़ कर बांये हाथ की बस्ती लेते हुए बनास पुलिया के छोर स्थित यशोदानंदन बाग तथा कब्रिस्तान की बाउण्ड्री को शामिल करते हुए यह वार्ड समाप्त होगा। (इसमें यशोदानंदन बाग, कब्रिस्तान, बिच्छुमंगरी उत्तरी भाग, चित्रकुट ग्राउण्ड, नस्थीनगर, तेलियों का तालाब आंशिक उत्तरी भाग, रेगर बस्ती, सतीमाता के पास की पूरी बस्ती सम्मिलित हैं।)
2.	2	नाथद्वारा नगरपालिका का वार्ड न0 2 बागोल सीमा पर रा0बा0उ0प्रा0वि0 के पास की बस्ती को शामिल करते हुए तेलियों का तालाब का दक्षिणी भाग तथा हाउसींग बोर्ड सम्पूर्ण होकर गोविन्द नगर की 'ए' से 'एफ' तक

		की सम्पूर्ण गलीयां यह वार्ड समाप्त होता हैं। (इसमें तेलियों का तालाब (दक्षिणी भाग), हाउसिंग बोर्ड सम्पूर्ण, गोविन्द नगर की सम्पूर्ण गलीयां सम्मिलित है।)
3.	3	नाथद्वारा नगरपालिका का वार्ड न0 3 गोकुल धाम सोसाईटी, जयश्री कॉलोनी, तिलकेश जी वकील सा0 द्वार बनायी कॉलोनी, कनवा बस्ती तथा टीटुदास जी की वाटिका होते हुए नवनीत जी गौरवा का मकान, आम्बा की ओल तथा बनास नदी के किनारे तक होते हुए बनास के पुल के उत्तरी भाग पर यह वार्ड समाप्त होगा।( इस वार्ड में जयश्री कॉलोनी, कनवा, आम्बा की ओल बस्ती, बांध रोड के मकान व नवनीत जी गौरवा की दुकानों का भाग अंकुर स्कुल तक क्षेत्र सम्मिलित है)
4.	4	नाथद्वारा नगरपालिका का वार्ड न0 4 बनास पूलिया गणगौर घाट से प्रारम्भ होकर ईमली चौक तथा जुनीबाडी की बस्ती को शामिल कर नगरपालिका की ओडन की तरफ की सीमा को लेकर नहर के पास से जाट खिडकी की पूरी सडक उपर चढते हुए जागीरदार हाउस के सामने रामकृष्ण जी गहलोत के मकान से बायीं ओर मुडकर गिरधारीलाल जी पान वाले के मकान को लेते हुए बांयी ओर मुडकर जाट खिडकी बस्ती को सम्मिलित करते हुए, किर्तीनिया घाटी उतरकर मंदिर परिक्रमा में बायी ओर मुडकर प्रभुदास जी माली की गली, सोनी गली व जोशीपाडा, भीमगढी की बस्ती को लेकर फाटक दरवाजा से महादेव जी की घाटी उतरते हुए बायीं ओर के सभी मकानों को शामिल करते हुए पालीवाल समाज की हवेली को शामिल करते हुए गणगौर बाग के पास यह वार्ड समाप्त होगा। (इस वार्ड में जूनीवाडी, गैस गोदाम पीएचईडी, जाट खिडकी बस्ती किर्तीनिया गली, सोनी गली, जोशीपाडा, भीमगढी, पालीवाल समाज हवेली, गणगौर बाग आदि का क्षेत्र सम्मिलित है)
5.	5	नाथद्वारा नगरपालिका का वार्ड नं0 5 भैरूजी के मंदिर से प्रारम्भ होकर एवं चौथमल जी वारी का मकान लेकर तुलसीदास सनाढय के मकान होकर चित्रकारों की गली नारायणलाल गौरवा के मकान होकर बडी बाखर की दांये हाथ की बस्ती को लेते हुए तथा चित्रकारों की गली की दूसरी साइड को लेते हुए रमेश सनाढय के मकान तक एवं तुलसीदास वर्मा के मकान को लेते हुए कठेडावाली चौकी की छोटी गली पूरी लेते सोहनलाल जी उपाध्याय के मकान पर यह वार्ड समाप्त होगा। (इस वार्ड में चित्रकारों की गली दोनों तरफ, बडी बाखर, कठेडावाली चौकी की छोटी गली का क्षेत्र सम्मिलित है।)
6.	6	नाथद्वारा नगरपालिका का वार्ड नं0 6 म0 न0 152 से प्रारम्भ होकर पानी की टंकी, गणेश टेकरी होते हुए पम्पहाउस के आस-पास के मकानात को लेते हुए कालका माता का मंदिर व आस-पास के गणेश नगर के मकान लेते हुए लालाराम गौरवा का मकानात् की गली वाईज म0 नं0 212 के पास होते हुए वापस हुनमानजी के मंदिर के तरफ के मकान को गिनते हुए म0 नं0 279 तक एवं उपर से वल्लभ दास पुरोहित (दुर्गास्टोर) का मकान एवं इसके आस-पास की नई बस्ती के मकानों को सरीक करते हुए प्राथमिक शाला जाट खिडकी होकर लम्बी गली की दूसरी साइड की बस्ती को लेते हुए हरीभगत जी की गली की दोनों साइड की बस्ती को लेते हुए लम्बी गली उतरते हुए परिक्रमा में नन्दलाल गौरवा के मकान को लेते हुए यह वार्ड समाप्त होगा। (इस वार्ड में गणेश टेकरी, कालका माता का मंदिर, गणेश नगर, दुर्गास्टोर, उ0प्रा0 शाला जाट खिडकी, लम्बी गली की दूसरी साईड की बस्ती, हरिभगत जी की पूरी गली का क्षेत्र सम्मिलित है।)

7.	7	नाथद्वारा नगरपालिका का वार्ड नं0 7 मोदियों की खिडक में हनुमान जी के मंदिर के पास प्रारम्भ होकर मोदियों की खिडक की पूरी बस्ती चौक लेते हुए बाहर निकलकर पूनमचन्द नाई के मकान होकर लोधा घाटी, मं0 न0 151 तक एवं लोधा घाटी बायला की पूरी बस्ती लेते हुए बडी बाखर में नन्द गौरवा के मकान को लेते हुए लाल सिंह गौरवा का मकान को लेते हुए गोपाल गोरवा का मकान से होते हुए सत्यनारायण के मकान वाली लाईन को सरीक करते हुए वहां से मुडकर बायला की पूरी बस्ती लेते हुए बक्षी जी की कोठी तक वंहा से मुडकर राजकीय मा0 वि0 बडा बाजार मुसलमानों की गली पुरी बस्ती होते हुए पुरुषोत्तम वारी के मकान तक यह वार्ड समाप्त होगा। (इस वार्ड में मोदियों की खिडक, बायला, बडा बाजार मुसलमानों की गली आदि सम्मिलित है)
8.	8	नाथद्वारा नगरपालिका का वार्ड नं0 8 होटल तीर्थ दर्शन की गली से मोदियों की खिडक जाने वाली गली में से बायां हाथ की तरफ से शुरू होकर धनराज सोनी की गली, गुर्जरपुरा की तरफ प्रहलाद जी त्रिपाठी के मकान के पिछले हिस्से होते हुए गोविन्दकांत त्रिपाठी के मकान के पिछले हिस्से की तरफ से पूरा गुर्जरपुरा सम्पूर्ण बस्ती को सम्मिलित करते हुए 120 फिट रोड के सर्कल को सम्मिलित करते हुए वल्लभपुरा रोड की तरफ मुडकर गुर्जरगढी तक बांये हाथ की बस्ती को लेते हुए पुनः हेला वाली गली पर दादु पहलवान के घर के वहां पर यह वार्ड समाप्त होता है। (इस वार्ड में गुर्जरपुरा सम्पूर्ण भाग, रामबोला, गुर्जरपुरा पूरी, दरोगा वाली गली, नीम की चौकी, गणेशटेकरी, पातलमांझा गली इसमें सम्मिलित हैं।)
9.	9	नाथद्वारा नगरपालिका का वार्ड नं0 हेला वाली गली से शुरू होकर बायीं तरफ गली श्यामजी गुर्जर की होटल से उपर चलते हुए बायीं तरफ के सभी मकान लक्ष्मीनारायण गुर्जर का मकान सम्पूर्ण वल्लभपुरा को शामिल करते हुए गणेश टेकरी रोड की तरफ बायीं तरफ के मकान से होते हुए गणेश टेकरी रोड पर 120 फिट रोड शामिल करते हुए शगुन होटल के यहां से शुरू होते हुए गोविंद चौक, बांये हाथ की तरफ श्याम जी गुर्जर की होटल के वहां आकर यह वार्ड समाप्त होगा। ( इस वार्ड में हेला गली, सम्पूर्ण वल्लभपुरा, गणेश टेकरी के बायीं तरफ के मकान तथा शगुन होटल से गोविन्द चौक, श्याम गुर्जर की होटल तक का हिस्सा शामिल है।)
10.	10	नाथद्वारा नगरपालिका का वार्ड नं0 10 में 120 फिट रोड के कोर्नर शगुन होटल से शुरू होकर बायीं तरफ वाली लाईन से होते हुए 120 फिट रोड सर्कल पार्किंग वाला क्षेत्र, शिवमूर्ति, त्रिनेत्र सर्किल को लेते हुए नाथुवास पेट्रोल पम्प हरिदास जी गुर्जर का मकान से होते हुए नाथुवास खुर्र से नीचे उतरते हुए द्वारकाधीश मंदिर को लेते हुए सामने हरिदास जी गुर्जर सत्यानारायण जी गुर्जर के मकान को लेकर उपर की ओर चढते हुए राधारमण जी गुर्जर के मकान से ताराबुर्ज के सामने की बस्ती घनश्यामजी पामेचा का मकान लेकर लक्ष्मण जी सनादय के मकान को लेते हुए रामपुरा के नीचे बांये हाथ की बस्ती को लेते हुए वेधराज लक्ष्मीनारायण के मकान को लेकर झरना दरवाजा के दोनों साईट की बस्ती, अम्बावाडा अखाडा, नवनीत गुर्जर (बाडी) के मकान एवं आस-पास की बस्ती लेकर सामने रूपकिशोर गुर्जर की साईड लेते हुए दर्जियों के मकान लेकर सम्पूर्ण मीरा नगर को लेते हुए द्वारकाधीश मंदिर पर यह वार्ड समाप्त होगा। (इस वार्ड में शिवमूर्ति 120 फिट रोड की बायीं तरफ, मीरा नगर, गिरधर सागर, द्वारकाधीश मंदिर, ताराबुर्ज के सामने की बस्ती, झरना

		दरवाजा अम्बावाडा अखाडा आदि सम्मिलित है।)
11.	11	नाथद्वारा नगरपालिका का वार्ड नं0 11 सम्पूर्ण ब्रह्मपुरी को लेते हुए आरटीडीसी होटल, सुथार पाडा को लेते हुए सुथार पाडे के पीछे स्थित भील समाज की बस्ती, सत्यनारायण जी गुर्जर का मकान प्रमोद जी गुर्जर के मकान उत्सव होटल तक तथा राजु भाई गुर्जर की वाटिका वाला क्षेत्र लेते हुए आस-पास की बस्ती, नाथुवास तालाब, पेट्रोल पम्प से सर्विस लाईन से श्रीजी रिसोर्ट से नाथुवास चौराहे से बांयी और मुडते हुए खेमचन्द्र मीना का मकान श्यामजी भांग वाले का मकान से नाथुवास तालाब के सहारे-सहारे को शामिल करते हुए वापस ब्रह्मपुरी तक यह वार्ड समाप्त होता है। (इस वार्ड में ब्रह्मपुरी, सुथार पाडा, भील बस्ती, पीपलीवाला चौक, होटल उत्सव, श्रीजी रिसोर्ट, राजु भाई की वाटिका आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं।)
12.	12	नाथद्वारा नगरपालिका का वार्ड नं0 12 राष्ट्रीय राजमार्ग से उत्सव होटल के सामने वागेरी नाका से प्रारम्भ होकर मिठु गुर्जर के मकान होते हुए सडक गौशाला रोड के इस साइड की बस्ती लेते हुए तीखी पर नगरपालिका सीमा तक वहां से मुडकर जोधेला की बस्ती, गौशाला, हाडकियों की मंगरी, गुर्जरों की बस्ती कन्या शाला होते हुए गली न0 1 होते हुए सामुदायिक भवन म0 न0 131, 132, 133 गुर्जरों के बाडे आवासीय मकान बस्ती होते हुए स्कुल के दक्षिण में चलते हुए आनन्दीलाल के मकान से होते हुए गली रास्ता पार कर राजमा गुर्जर के मकान होते हुए गली व न0 से पार्क करते हुए म0 न0 130, 135 आवासीय गैर आबाद मकान होते हुए यह वार्ड समाप्त होगा। (इस वार्ड में पुरोहित हॉस्पिटल, होटल राजमहल, गौशाला, जोधेला, हाडक्या मंगरी आदि सम्मिलित हैं।)
13.	13	नाथद्वारा नगरपालिका का वार्ड नं0 13 राधेश्यामजी गुर्जर का मकान 138 होते हुए मकान के सीलसीले वार म0 न0 156 पर आये और कृषि भूमि बूजंडा से बजानीब दक्षिण की तरफ म0 न0 170 होते हुए म0 न0 180 भैरुजी के मंदिर तक, भील बस्ती पुरी माता का मंदिर गौशाला का रोड उपरी भाग के पास के मकानात् को लेते हुए यह वार्ड समाप्त होगा। ( गंगहट के पीछे की बस्ती, डाईट कॉलेज, कोर्ट परिसर, रणथम्भौर, आई.टी. आई. पुलिस क्वार्टर्स , आबकारी थाना, 132 केवी ग्रिड स्टेशन, बुझंडा बस्ती उसके पीछे की बस्ती आदि सम्मिलित हैं )
14.	14	नाथद्वारा नगरपालिका का वार्ड नं0 14 बागेरी नाका कार्यालय से शुरू होकर लार्ड परिषद नवदीप रिसोर्ट नगरपालिका कार्यालय व इसके की पीछे बस्ती, हाउसींग बोर्ड कॉलोनी, अनिता चौधरी की गली, उसके आगे नारायण चौक से प्रमोद जी पालीवाल (मिराज वाले) के घर की तरफ वाली गली, सुमेरसिंह जी के मकान की गली तथा मुद्रिका चौक तथा इसके सामने वाली गली टेलीफोन एक्सचेंज के पास वाली लाईन से जमनादास जी के मकान की टंकी नई वाली लाईन अशोक जी सोनी वाली गली से लेकर पीछे लाल बंगले की लाईन को शामिल करते हुए गोविन्द जी झंवर के मकान तथा नारायण चौक होते हुए वापस नगरपालिका कार्यालय की लाईन को मिलाते हुए बागेरी नाका पर यह वार्ड समाप्त होगा। (इस वार्ड में विद्या निकेतन स्कुल, बीडी वाले की बिल्डिंग, श्मशान की जमीन, नारायण चौक, नगरपालिका कार्यालय, हाउसींग बोर्ड की कॉलोनी क्षेत्र सम्मिलित है।)
15.	15	नाथद्वारा नगरपालिका का वार्ड नं0 15 टेलीफोन एक्सचेंज सुखाडिया नगर के पीछे की बस्ती प्रदीप जी वकील सा0 का मकान तथा पीछे की पूरी

		यादव बस्ती, रामपुरा सम्पूर्ण भाग, परशुराम महादेव वाली लाईन पुरोहित विश्रांति गृह बॉम्बे कोटेज, सारण की उपर की बस्ती को लेते हुए ताराबुर्ज के पास यह वार्ड समाप्त होगा। (इस वार्ड में यादव मोहल्ला, हच टावर के पास, कैलादेवी मंदिर के पास, पनघट के पास की बस्ती, बॉम्बे कोटेज, पुरोहित विश्रांति गृह, रामपुरा सम्पूर्ण व नया तालाब की बस्ती सम्मिलित है।)
16.	16	नाथद्वारा नगरपालिका का वार्ड नं0 16 नगरपालिका कार्यालय के सामने से एलआईसी की बिल्डिंग से शुरू होकर क्रीमसन पार्क होटल से नारायण चौक की तरफ बढ़कर दायीं तरफ वाली सडक पर लालबगंले के सामने वाली टंकी वाली लाईन पूरी तथा मुरलीधर जी कनेरिया के मकान तथा इसके पीछे वाली सडक पर उपर तक के सभी मकान को शामिल कर गोपाल बावा सनाढ्य के मकान एवं नई हवेली स्कूल को शामिल करते हुए सुखाडिया पार्क आदि गौड ब्राह्मण समाज की हवेली सुखाडिया पार्क के पास से हरीश बागोरा का मकान से कच्ची बस्ती रामदासिया बस्ती एवं आरएसईबी का कार्यालय एवं उसके उपर की बस्ती, सुरेश जी हरिजन के मकान की लाईन को शामिल करते हुए सीधा गाडुलिया समाज की बस्ती एवं बीमा बालाजी के मंदिर को शामिल करते हुए पुनः किमसन पार्क होटल एवं एलआईसी भवन पर यह वार्ड समाप्त होगा। (इस वार्ड में कच्ची बस्ती, सुखाडिया पार्क के पास का हिस्सा, रामदासिया बस्ती, आरएसईबी कार्यालय व इसके उपर की बस्ती का हिस्सा, गाडुलिया समाज की बस्ती, किमसन पार्क होटल तक की बस्ती सम्मिलित है।)
17.	17	नाथद्वारा नगरपालिका का वार्ड नं0 17 नानजी का बाग पूरा आरएसईबी ऑफिस वाली सडक के दांये भाग से प्रारम्भ होकर शिव मंदिर प्यारेलाल देराश्री का मकान व पीछे वाली भील बस्ती को शामिल करते हुए केवल खडा गणपति मंदिर से चमत्कार चौराहा की बस्ती वल्लभ जी सोनी के मकान को शामिल करते हुए सिंधी कॉलोनी तक दोनों साइड की लाईन बाबुलाल कुम्हार का मकान को लेते हुए इसके पीछे की बस्ती रमेश जी सोनी के मकान की पूरी लाईन विजयवर्गीय के मकान तक वहां से सीधे महादेव मंदिर सिंधीयों के सभी मकान को शामिल करते हुए दिल्ली बाजार से चौपाटी होते हुए गांधी रोड मणीबाई धर्मशाला शामिल करते हुए टेक्सी स्टेण्ड पर यह वार्ड समाप्त होगा। (इसमें नानीजी का बाग, सिंधी कॉलोनी, कुम्हारवाडा, पोरबन्दर धर्मशाला, मणिबाई धर्मशाला, देलवाडा वाली धर्मशाला, महादेव जी का मंदिर दिल्ली वाली धर्मशाला सम्पूर्ण परिसर जिला पुस्तकालय गोकुल कॉटेज सम्मिलित है।)
18.	18	नाथद्वारा नगरपालिका का वार्ड नं0 18 कन्या विद्यालय से प्रारम्भ होकर दोनों साइड की सडकों को शामिल करते हुए रिसला चौक दायीं तरफ तथा बायीं तरफ चेतन जी गहलोत के घर से प्रारम्भ होकर रिसला चौक बैण्ड लाईन तथा आईस फेक्ट्री एवं इधर मंदिर मण्डल का ऑफिस लाइन तथा दायीं तरफ कुम्हारवाडा की मेन रोड तथा दांयी तरफ की कुम्हारवाडा की रघु जी कुम्हार वालीगली गोपी वल्लभ होटल भैरुजी मंदिर तक वाली गली एवं तेजा जी के चौक तक वाली गली दायीं तरफ नवनीत जी सनाढ्य के मकान तक एवं बायीं तरफ रावतों के दरवाजे के बाहर वाले मकान की बायीं तरफ की लाईन को शामिल करते हुए सेवन स्टार कॉम्प्लेक्स को शामिल करते हुए आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स तक एवं श्रीजी कॉलोनी पूरी को शामिल करते हुए कोठारी अतिथिशाला तक वंदना वाटिका तक यह वार्ड समाप्त होगा। (इस वार्ड में कन्या विद्यालय, आईस फेक्ट्री रिसला चौक, बैण्ड लाईन मंदिर मण्डल कार्यालय कुम्हारवाडा की

		तीनों गलिया, तेजाजी चौक, आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स, सेवन स्टार, कोठारी अतिथिशाला, वंदना वाटिका सम्मिलित है। )
19.	19	नाथद्वारा नगरपालिका का वार्ड नं0 19 रावतो का दरवाजा के अन्दर से उतरकर दोनो ओर के मकानो को शामिल करते हुए राइट साईड में माणक लाल सोनी के मकान की गली पटवारी पायसा को शामिल करते हुए जाट मोहल्ला की दोनो लाईन चीतरवाडा शान्तिलाला जी चौधरी, इर्लम जी सनाढ्य के मकान के आस-पास की बस्ती 7 स्टार कॉम्प्लेक्स के पीछे की बस्ती को शामिल करते हुए उपला पायसा जुगल किशोर जी सनाढ्य के मकान से उपला पायसा की पूरी बस्ती को लेते हुए नरेश सनाढ्य, ओम जी चौधरी का मकान की लाईन रघुनन्दन जी त्रिपाटी के मकान की लाईन को शामिल करते हुए तथा बाईं तरफ में प्रकाश जी सनाढ्य पार्श्व के घर की लाईन को शामिल करते हुए तबैला की पुरी बस्ती को लेते हुए नाथुलाल जी सनवाडी के मकान के आमने सामने पर यह वार्ड समाप्त होगा। (इस वार्ड में रावतो का दरवाजा, पटवारी पायसा, जाट मोहल्ला, उपला पायसा, तबैला, चौबे गली, रावतो का दरवाजा से प्रवेश कर नई चौक तक की सभी गलियां सम्मिलित है।)
20.	20	नाथद्वारा नगरपालिका का वार्ड नं0 20 नई हवेली चौक में सनवाडी के मकान के पास दिनेश इलेक्ट्रीक्स के मकान से प्रारम्भ होकर रमेश मेघदुत की गली को लेते हुए तेरापंथी लाईन को लेते हुए चुडी घरो का मोहल्ला को शामिल करते हुए कन्हैयालाल भण्डारी वाली गली डॉ सी.पी जोशी के मकान को शामिल करते हुए आस-पास की पूरी बस्ती तैजाजी के चौक से घुम कर रामदास सौमानी के मकान को सम्मिलित करते हुए इमारत की कछहरी होते हुए मोती लाल जी सनाढ्य के मकान से ढोलियों का दरवाजा द्वारकाधीश जी की खिडक आन्नद टॉकीज की गली वाला पूरा मोहल्ला, कुन्जडा बस्ती सुभाष राठी के मकान को लेते हुए नाकोडा मिष्ठान को लेते हुए गणेश मान मर्चेन्ट से मोटर गेराज तथा गोविन्द भवन को सम्मिलित करते हुए यह वार्ड खत्म होगा। (इस वार्ड में बागरवाडा, तैजाजी चौक, चारणो की खिडक, द्वारकाधीश जी की खिडक, नई हवेली चौक आंशिक, ढोलियों का दरवाजा, आनन्द टॉकीज की गली सम्मिलित है।)
21.	21	नाथद्वारा नगरपालिका का वार्ड नं0 21 चोपाटी स्थित बालाजी कुन्दन ज्वैलर्स की दुकान से प्रारम्भ होकर सराफा बाजार, बोहरा बाजार, माइश्वरी हवेली, गली वाला गोपाल पुरा, मौची बाजार, बडा गोपाल पुरा, सम्मिलित कर इबराईम मन्सुरी की दुकान व मकान को शामिल कर वहां से मुड कर नन्द लाल जी सोनी की दुकान होकर मोची बाजार की साईड की बस्ती लेते हुए छोटा गोपालपुरा की पूरी बस्ती लेते हुए मोची बाजार की यह वाली साईड गणेश दरवाजा अन्दर लाल बाजार पुरा सोहनलाल बडाला के मकान को शामिल करते हुए साहित्य मण्डल सब्जी मण्डी, गांधी पार्क, माणक चौक से गांधी रोड होते हुए बैंक ऑफ बडौदा से धीरज धाम होते हुए केशव कॉम्प्लेक्स से सीधे महेश्वरी पंचायत के पिछले दरवाजे पर यह वार्ड समाप्त होता है। (इस वार्ड में सराफा बाजार, बोहरा बाजार, मोहेश्वरी पंचायत भवन, गली वाला गोपाल पुरा, मोची बाजार, बडा गोपाल पुरा, अहिल्या कुण्ड लाल बाजार, साहित्य मण्डल, रानी जी की धर्मशाला, बैंक ऑफ बडौदा केशव कॉम्प्लेक्स व इसके पिछे की बस्ती में शालु कवयित्री के घर से आगे मराठा के मकान तक कॉ-ऑपरेटीव सोसाइटी के बाहर आदि सम्मिलित है।)
22.	22	नाथद्वारा नगरपालिका का वार्ड नं0 22 तेलीपुरा की तरफ जाकर दोनो

		<p>तरफ की बस्ती व चोथमल सोनी की आटा चक्की की तरफ को लेकर बोहरा बाजार समाज व तेली समाज के घरों को शामिल करते हुए सामने घांची के मकानों को शामिल करते हुए फरनी को सीमा मानते हुए बोहरा समुदाय के सभी मकान एवं रामचन्द्र जी के मकान से होकर दाया भवन धर्मशाला सरस्वती अवाडा श्रीनाथ जी मन्दिर को सम्मिलित करते हुए वल्लभ चिकित्सालय को शामिल करते हुए रसोई की कुडी होकर आमली वाला चौक, भाटियों की पोल नया बाजार होते हुए प्रियतम पोल होते हुए विठ्ठलनाथ जी मन्दिर व कॉटेज व उल्टी परिक्रमा करते हुए मोती महल के घडी नीचे के सामने वल्लभ होटल तक की दुकानों को शामिल करते हुए लखोटिया गली को शामिल करते हुए सोढो का पायसा सम्पूर्ण को शामिल करते हुए प0 रामचन्द्र जी बागोरा के मकान के यहा वार्ड समाप्त होता है। (इस वार्ड में तेलीपुरा, बोहरा मस्जिद व कच्ची बस्ती, नया बाजार, श्रीनाथ, मन्दिर, वल्लभचल चिकित्सालय, आमली चौक, विठ्ठलनाथ जी मन्दिर व कोटेज, लखोटिया गली, बडा बाजार, मोती महल सेढो का पायसा सम्मिलित हैं।)</p>
23.	23	<p>नाथद्वारा नगरपालिका का वार्ड नं0 23 यह वार्ड सांचिहार समाज की हवेली से होकर आस-पास की बस्ती तथा तम्बाकु वाली गली को लेते हुए मोहन गढ का उपला चौक की पुरी बस्ती को लेते हुए फरनी को सीमा मानते हुए अब्दुल रहमान के मकान लेते हुए नीचे उतरकर मोहनगढ निचला चौक मीठालाल जी मोची का मकान राम देवी जी मन्दिर होते हुए आस-पास की बस्ती को सम्मिलित करते हुए एवं निचला चौक से घुम कर मोतीलाल घडी साज के मकान को शामिल करते हुए नन्दलाल जी भुतडा के मकान को शामिल करते हुए घनश्याम जी वनावडिया का मकान एवं धोबियों की घाटी के मकान को शामिल करते हुए एवं गोपाल इन्जीनियर के मकान को शामिल करते हुए सांचिहार समाज की हवेली पर यह वार्ड समाप्त होगा। (इस वार्ड में सांचिहार समाज की हवेली, मथुरानाथ जी का मन्दिर, मोहनगढ से गोपाल निवास, मोहनगढ रोड मोहनगढ चौक, तम्बाकु वाली गली, उपला चौक, बोहरा बस्ती, धोबियों की घाटी सम्मिलित है।)</p>
24.	24	<p>नाथद्वारा नगरपालिका का वार्ड नं0 24 यह वार्ड फाटर दरवाजा महादेव जी की घाटी से ईमली चोक जाने वाले रास्ते पर दायी लाईन में नटवर नागर के मकान व आस-पास की बस्ती को शामिल करते हुए महादेव जी की घाटी समाप्त होने पर देवकी नन्दन जी मास्टर सा0 के मकान से दायी तरफ वाली सडक को शामिल करते हुए विळलनाथ जी कॉटेज, हरिजन बस्ती को शामिल करते हुए मोहनगढ के निचला चौक का कुछ भाग मोती लाल घडीसाज के मकान से नीचे का हिस्सा शामिल करते हुए कॉ ऑपरेटिव सोसायटी को शामिल करते हुए महावीर पुरा की पुरी बस्ती को शामिल करते हुए सोनी समाज का नोहरा होते हुए नील कण्ठ टिम्बर को पुरी बस्ती को शामिल करते हुए पीपली हरिजन बस्ती पर यह वार्ड समाप्त होता है। (इस वार्ड में फाटक दरवाजा, महादेव जी की घाटी विळलनाथ जी कोटेज के पास वाली गली हरिजन बस्ती, मोहनगढ निचला चौक आंशिक भाग, कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी महावीर पुरा, सोनी समाज नील कण्ठ टिम्बर आदि सम्मिलित हैं।)</p>
25.	25	<p>नाथद्वारा नगरपालिका का वार्ड नं0 25 यह वार्ड नगरपालिका की सिद्धेश्वर महादेव से प्रारम्भ होकर चोपेतो का बाग ईमली बाजार की दायी तरफ पर संतोष सनाढय के मकान की बस्ती एवं गोविन्द पाठशाला के आस-पास का हिस्सा संस्कृत कॉलेज आवाडा श्मशान की जमीन को शामिल करते</p>

		हुए किशन माली एवं घटिया वाला अखाडा को शामिल करते हुए बोहरा कब्रिस्तान के सामने वाली लाईन को शामिल करते हुए ईटो के भट्टो वाली लाईन होते हुए किशन माली के मकान की बस्ती को शामिल करते हुए कार्ईना हाउस के सामने वाली लाईन को सीधा हायर सेकेण्ड्री स्कूल को शामिल करते हुए अंजुमन के बाहर हनुमान मन्दिर होते हुए नया मोहल्ला पुरा सम्मिलित होकर सिद्धेश्वर महादेव पर यह वार्ड समाप्त होगा। (इस वार्ड में अखाडा, गोविन्द पुरा, नया मोहल्ला, हनुमान मन्दिर के पास वाली बस्ती, अंजुमन सोसायटी, सिधंवी जी की हवेली के सामने वाली बस्ती घेवरी, मुवितधाम, संस्कृत कॉलेज, गोविन्द पाठशाला चौपेता का बाग, सिद्धेश्वर महादेव सम्मिलित है।)
26.	26	नाथद्वारा नगरपालिका का वार्ड नं0 26 यह वार्ड नगरपालिका के गिरिराज पुरा तथा बोहरा के कब्रिस्तान के हिस्से को शामिल करते हुए कार्ईना हाउस आने वाले मार्ग पर दायी तरफ की सम्पूर्ण बस्ती एवं काइना हाउस को शामिल करते हुए मुसलमान बस्ती गरीब नवाज कॉलोनी को शामिल करते हुए गरीब नवाज कॉलोनी का एण्ड करते हुए सिंहाड तक तथा उधर उपर की तरफ गिरिराज पर्वत के तरफ में भेरूजी के मन्दिर से नीचे नहर तथा उसके उपर की बस्ती को शामिल करते हुए वापस कार्ईना हाउस गिरिराज पुरा तक यह वार्ड समाप्त होगा। (इस वार्ड में गिरिराज पुरा, बोहरा का काबिस्तान, कार्ईना हाउस, गरीब नवाज कॉलोनी तथा शंकर जी भंगार वाले की नहर के उपर वाली दुकान होते हुए वापस गिरिराज पुरा सम्मिलित है)
27.	27	नाथद्वारा नगरपालिका का वार्ड नं0 27 शम्भु जी के मकान से प्रारम्भ होकर दायी तरफ जाने वाला मार्ग अशोक जी पान वाले का मकान सिधंवी जी की हवेली का सम्पूर्ण भाग इसके पिछे की बस्ती पिंजारा घाटी तथा फौज मोहल्ला होकर मस्जिद के सामने वाली लाईन होकर मालियों के नोहरा के पिछे की बस्ती, आसपास की बस्ती तथा मालियों के चौक को भी शामिल किया जायेगा इसके अलावा फौज मोहल्ला में मालियों के नोहरे से कन्हैयालाल जी कुमावत के मकान को शामिल करते हुए रेगर बस्ती रामद्वारा बस्ती तक यह वार्ड समाप्त होगा। (इस वार्ड में कार्ईना हाउस के सामने वाली गली शम्भु सिंह का मकान, मालियों का नोहरा, रामद्वारा घाटी, रेगर बस्ती एवं पिंजारा की घाटी, मालियों का चौक सम्मिलित है।)
28.	28	नाथद्वारा नगरपालिका का वार्ड नं0 28 यह वार्ड फौज मोहल्ला में चारभुजा मन्दिर के सामने रामद्वारा गली से होकर उपर तक की सम्पूर्ण बस्ती दायी तरफ तथा पानी की टंकी को सम्मिलित करते हुए उपर पानी की टंकी के आस-पास की सम्पूर्ण बस्ती सिंहाड हनुमान जी जाने वाले मार्ग पर उबा गणेश जी तक का हिस्सा शामिल होगा यह हिस्सा उबागणेश जी मन्दिर से उपर तक बसी बस्ती को सम्मिलित कर यह वार्ड समाप्त होता है। (इसमें फौज मोहल्ला चारभुजा मंदिर के सामने तथा रामद्वारा गली से उपर की ओर पानी की टंकी की बस्ती सिंहाड हनुमानजी मार्ग तथा उबा गणेश जी का आंशिक हिस्सा सम्मिलित है।)
29.	29	नाथद्वारा नगरपालिका का वार्ड नं0 29 सिंहाड का तालाब को शामिल करते हुए हाईवे से पुलिस थाने के सामने से सिंहाड का तालाब के किनारे से होते हुए दायी तरफ होते हुए सिंहाड चोक भगतसिंह स्कूल, तथा गरीब नवाज कॉलोनी को छोडते हुए शेष सिंहाड इसमें शामिल होगा। इस वार्ड में कालका माता मंदिर से सिंहाड उच्च प्राथमिक विद्यालय की ओर जाकर नहर के पास सिंहाड घाटी चढकर आस-पास की बस्ती को शामिल करके

		सरदार भगतसिंह स्कूल के आस-पास की बस्ती व बायें हाथ की बस्ती को लेकर मदन लाल जी सिकलीघर के मकान होते हुए घाटी पर बलाईयों के मकान को छोड़कर वहां से मुड़कर गोरज्या माताजी मंदिर के आस-पास की बस्ती वैधनाथ की बस्ती व मोहन जी कलाल की बस्ती के मकान तथा बड़े मंगरे तथा नहर के बीच की बस्ती को सम्मिलित कर सिहांड तालाब के सामने वाली बस्ती को पशु चिकित्सालय होते हुए दानघाटी होते हुए हाईवे से दायां हाथ की तरफ होते हुए सिहांड के तालाब पर यह वार्ड समाप्त होगा। (इस वार्ड में सरदार भगत सिंह स्कूल, गोरज्या माता मंदिर नहर और मंगरे के बीच की बस्ती सामुदायिक भवन पशु चिकित्सालय सम्मिलित है।)
30.	30	नाथद्वारा नगरपालिका का वार्ड नं० 30 यह वार्ड उबा गणेश जी के मन्दिर वाली गली के दायी वाली तरफ से सिहांड जाने वाले मार्ग पर बाये हाथ की तरफ की समस्त गलिया शेषनारायण माली के घर वाली गली तथा इस को आगे बढ़ाने हुए सुर्य प्रकाश वकील का ऑफिस को सम्मितिल तथा इसके आस-पास की बस्ती को शामिल करते हुए सिहांड का आंशिक भाग हनुमान मन्दिर तथा इसके पीछे नन्दलाल चैचाणी का मकान तथा योगेश जी सनाढ्य के मकान की गली से दायी तरफ वाली गली मे होते हुए वास विनायक कॉम्प्लेक्स व फतहलाल लोढा के कॉम्प्लेक्स वाली गली को शामिल करते हुए उबा गणेश मन्दिर पर यह वार्ड समाप्त होगा। (इसमें उबा गणेश जी मंदिर के दायीं ओर सिहांड मार्ग के आस-पास की बस्ती, सिहांड का आंशिक भाग, हनुमान मंदिर व नंदलाल चैचाणी के मकान की गलीयां विनायक कॉम्प्लेक्स व फतेहलाल लोढा के कॉम्प्लेक्स के साथ उबा गणेश मंदिर का हिस्सा सम्मितिल है।)
31.	31	नाथद्वारा नगरपालिका का वार्ड नं० 31 हायर सेकेण्ड्री स्कूल के सामने से कृष्णा मेडिकल स्टोर से प्रारम्भ होकर मस्जिद रोड पर चलते हुए दये हाथ की पूरी बस्ती लेते हुए होलीमंगरा की बस्ती फौज की बस्ती लेते हुए लालसिंह जी ठेकेदार के मकान को लेते हुए सुथारों की वाटिका को शामिल करते हुए सिहांड जाने वाले मार्ग पर दायी तरफ वाली सडक तथा वापस दायी तरफ में फतहलाल लोढा के कॉम्प्लेक्स के सामने वाली गली से सीधा गायरियों की मंगरी पूरी शामिल करते हुए फौज मोहल्ला में चारभुजा मंदिर के क्षेत्र को शामिल करते हुए यह वार्ड समाप्त होगा। (इस वार्ड में गायरियों की मंगरी, चारभुजा मंदिर व आस-पास की बस्ती होलीमंगरा के बांये हाथ की बस्ती सम्मितिल है।)
32.	32	यह वार्ड तहसील रोड पर होलीमंगरा की सीढीयां चढकर दायें हाथ की पूरी बस्ती लेते हुए लालसिंह के पिछे मकान की पूरी बस्ती लेते हुए फौज मोहल्ला की बस्ती को छोडते हुए हरिजन बस्ती पूरी सर्किट हाउस के पीछे आयुक्त क्वार्टर होते हुए दायें हाथ की बस्ती लेते हुए तहसील कार्यालय को सम्मितिल करते हुए उपखण्ड अधिकारी के आवास को लेते हुए कर्मचारी कॉलोनी में सीधे उतरकर दायें हाथ के मकानों को लेते हुए गोपालसिंह राठौड के मकान तक वहां से दायें मुड़कर कर्मचारी कॉलोनी के दायें हाथ के समस्त मकानों को लेते हुए श्याम बर्तन हाउस के मकान को लेते हुए आगे बढ़ते हुए विमल तापडिया के मकान को समिल्लित करते हुए अरुण जी सनाढ्य के मकान से तहसील रोड पर दायें हाथ के मकान लेते हुए पीडब्ल्यू डी डाक बंगला शामिल करते हुए सिचाई विभाग का कार्यालय होते हुए दायें हाथ की तरफ की हरिजन बस्ती को लेते हुए इसे होटल वैकुण्ठ को लेकर गोपी गेस्ट हाउस से होलीमंगरा की सीढीयां पर यह वार्ड समाप्त होगा। (इस वार्ड में गोपी गेस्ट हाउस, होटल वेकुण्ठ,

		हरिजन बस्ती, डाक बंगला, गुलाब भवन, तहसील परिसर व आस-पास के मकान, अरुण सनाढ्य का मकान एवं कर्मचारी कॉलोनी का आधा भाग सम्मिलित हैं।)
33.	33	नाथद्वारा नगरपालिका का वार्ड नं0 33 होलीमंगरा के सामने स्थित मॉडर्न स्कूल से प्रारम्भ होकर व्यास के कुण्ड नई रोड इन्द्रा मार्ग होते हुए एसबीबीजे बैंक, लोहाणा अतिथिशाला, उज्ज्वल वाटिका तथा राजदीप होटल की गली, नीलम अपार्टमेंट की गली, दायें हाथ में भण्डारी कॉम्प्लेक्स तथा उसके पास की बस्ती एवं लक्ष्मी पैलेस होटल एवं आदर्श नगर का आंशिक भाग तथा मनमोहन रेस्टोरेन्ट के पहले वाली गली से मानव विला वाली गली में प्रवेश कर बायें हाथ वाली लाईन को लेकर कन्हैयालाल जी श्रीमाली वकील सा0 के मकान को सम्मिलित करते हुए वापस मुख्य सड़क तहसील रोड पर बायें हाथ वाली बस्ती को शामिल करते हुए माणकलाल वशिष्ठ के मकान व उसके पीछे की बस्ती को शामिल करते हुए हकीम भाई बोहरा वाली गली वर्षा वाटिका को सम्मिलित करते हुए मॉडर्न स्कूल पर यह वार्ड समाप्त होगा। (इस वार्ड में वर्षा वाटिका, व्यास कुण्ड, एसबीआई बैंक, राजदीप होटल आंशिक आदर्श नगर, मनमोहन रेस्टोरेन्ट, कन्हैयालाल श्रीमाली का मकान, हकीम भाई बोहरा वाली गली के बांये हाथ की बस्ती सम्मिलित है।)
34.	34	नाथद्वारा नगरपालिका का वार्ड नं0 34 व्यास कुण्ड के सामने वाली लाईन केशव कॉम्प्लेक्स के पीछे वाली मुस्लिम बस्ती होते हुए लखारा गली नई सड़क तथा अहिल्या कुण्ड चौराहा से नई हवेली चौक में होते हुए मनोहर जी सोनी की दुकान वाली लाईन को शामिल करते हुए जैन समाज के मंदिर को लेते हुए प्रकाश सोनी के मकान से नीम वाली गली, बालाजी ज्वैलर्स वाली गली पंकज राठी का मकान की लाईन को शामिल करते हुए जांगीड ब्राह्मण समाज की हवेली व लास्ट रमेश लोढा के मकान को सम्मिलित करते हुए आईस फेक्ट्री की लाईन को शामिल करते हुए नई रोड पर भण्डारी की दुकान को लेते हुए सिद्धी विनायक कॉम्प्लेक्स तुलसीदास तलेसरा के मकान, कैलाश जी चौधरी, तथा सामने गोपीलाल जी वागरेचा के मकान की लाईन को शामिल करते हुए पाटीदार समाज की धर्मशाला को शामिल करते हुए वंदना होटल को सम्मिलित करते हुए मुन्ना पान वाले के यहा यह वार्ड समाप्त होगा। (इस वार्ड में केशव कॉम्प्लेक्स के पीछे की मुस्लिम बस्ती, लखारा गली, मनोहर जी सोनी की दुकान वाली लाईन एवं आईस फेक्ट्री की बस्ती सम्मिलित है।)
35.	35	नाथद्वारा नगरपालिका का वार्ड नं0 35 नई सड़क पर मनमोहन रेस्टोरेन्ट के पहले वाली मानव विला की गली में प्रवेश कर दायें हाथ की तरफ गली को शामिल करते हुए आदर्श नगर का आंशिक भाग मानजी स्वामी तक के बाद से सीधा श्रीनाथ वाटिका को शामिल करते हुए कर्मचारी कॉलोनी केजी माहेश्वरी बालाजी ज्वैलर्स के मकानों को शामिल करते हुए व रघुनाथ नगर को पूरा शामिल करते हुए सिहांड हनुमान जी के पीछे चौराहे पर राईट साईड हाईवे की तरफ मुड़ते हुए पुलिस थाने के सामने वाली लाईन श्रीनाथ होटल की लाईन होते हुए मॉडल बस स्टेण्ड तथा उसके पीछे की बस्ती को लेते हुए नाथद्वारा प्रवेश द्वार बोहरा पम्प को शामिल करते हुए रमेश समदानी के मकान व आस-पास के एरिया को शामिल करते हुए आरएसईबी के गेट के बाहर कोठारी जी के मकान को लेते हुए जयश्री होटल की राईट साईड वाली लाईन शाही पैलेस होटल सूर्या होटल डाकघर के आस-पास की गली जोरावर मल जी सोनी का मकान व आस-पास का मार्केट महादेव मंदिर होते हुए मुन्नाभाई पान वाले

		के सामने वाली लाईन पूर्णिमा गेस्ट हाउस वाली लाईन वंदना मार्केट शामिल करते हुए मनमोहन रेस्टोरेन्ट वाली गली पर जाकर यह वार्ड समाप्त होगा। (इस वार्ड में आंशिक आदर्शनगर मानजी स्वामी, श्रीनाथ वाटिका, कर्मचारी कॉलोनी, श्रीनाथ होटल, नाथद्वारा मॉडल बसस्टेण्ड, प्रवेश द्वार, बोहरा पेट्रोल पम्प जयश्री, शाही पेलैस होटल सूर्या होटल तथा पूर्णिमा गेस्ट हाउस एवं वंदना मार्केट सम्मिलित है।)
36.	36	नाथद्वारा नगरपालिका का वार्ड 36 यह वार्ड म0न0 1 से प्रारम्भ होकर स्वामीनारायण धर्मशाला की बस्ती, दिलिप जी लोढा के कॉम्प्लेक्स को लेते हुए श्रीनाथ ट्रावेल्स, चौधरी पेट्रोल पंप के पिछे की बस्ती, बाई का तालाब के आस-पास की बस्ती को लेते हुए म0 न0 48, 49 पहाडी जंगल के सहारे होते हुए पावटी मार्ग कच्चा होते हुए म0 न0 107 तथा म0न0 149 मंदिर से प्रारम्भ होकर हरिराम जी का मकान न0 152 होते हुए मीन जानीब उत्तर की ओर रमेश टेलर मं0न0 157 होते हुए छगनलाल सेवक के मकान 163 पर पहुंचे आगे को पास वाली गली पार कर दांयी हाथ की तरफ म0न0 165/1 मोहबत सिंह होते हुए म0न0 165/2 मंदिर की ओर म0न0 176, 177 होते हुए रामचन्द्र जी के मकान के आस-पास के दाये-बाये मकान व मकान न0 179 व मकान शंकरलाल सुथार का होते हुए म0 न0 201/1 नरपत सिंह लखावत व म0न0 217 स्वरूप सिंह के पास होते हुए म0न0 204 व भंवरलाल उपर उत्तर की ओर गली की तरफ म0न0 218, 223 मंदिर तरफ पुरुषोत्तम मीणा के मकान न0. 224 होते हुए म0न0 234 राधेश्याम जी के मकान के पास तथा वन विभाग की कॉलोनी, खडायता अतिथि भवन के पिछे की बस्ती होते हुए विजया बैंक होते हुए यह वार्ड समाप्त होगा। (इस वार्ड में स्वामीनारायण धर्मशाला, दिलिप जी लोढा का कॉम्प्लेक्स, चौधरी पेट्रोल पंप के पिछे की बस्ती, बाई का तालाब का क्षेत्र, वन विभाग के पिछे की कॉलोनी आदि क्षेत्र सम्मिलित है।)
37.	37	नाथद्वारा नगरपालिका का वार्ड नं0 37 श्रीनाथ कॉलोनी के रास्ते के सहारे होते हुए मीन जानीब पश्चिम को मकानात् लेते हुए पूर्व दिशा की ओर म0 न0 142 लेते हुए वनविभाग कार्यालय के पास म0 न0 147 श्रीनाथ कॉलोनी बाई का तालाब मं0 न0 176 होते हुए बाई का तालाब विद्यालय के पास होते हुए दक्षिण पावटी बाग मं0न0 191 तथा म0न0 1 माता जी के मंदिर से प्रारम्भ होकर लालाराम वागडिया व आगे के मकानों की सर्वे करते हुए पावटी रोड नानालाल मीणा म0न0 38 लक्ष्मीलाल मीणा का मकान व भगवती लाल मीणा का मकान सं0 64होते हुए रोड पावटी के सहारे राजकीय प्राथमिक विद्यालय छोटी माली गली व दक्षिण को गिनते हुए म0न0 72 टिकमचंद शर्मा मं0न0 101 चम्पाबाई व म0न0 124/1,124/2 व 124/3 से म0न0 135 अनिल कुमार शर्मा व मकान नं0 138 सुरेन्द्र सिंह व म0न0 147 भुरालाल के होते हुए म0न0 148 शिव मंदिर होते हुए रामजी मीणा की कॉलोनी होते हुए पुलिस थाने तक यह वार्ड समाप्त होगा। (इस वार्ड में बाई का तालाब, पुलिस थाना, पावटी बाग मुख्यमंत्री जनआवास योजना के आस-पास की बस्ती सम्मिलित है।)
38.	38	नाथद्वारा नगरपालिका का वार्ड नं0 38 विनायक विहार कॉलोनी, बांदरिया मंगरा के नीचे बसी बस्ती सोनल गैस एजेन्सी से होते हुए अरिहन्त कॉम्प्लेक्स उदासीन धुणी होते हुए लालबाग चौराहा तक दायी तरफ वाली सडक शेखर जी के मकान वाली गली गिरीश जी विद्रोही के मकान एवं कोठारिया रोड पर प्रवेश करते समय राईट साईड की पूरी बस्ती सावित्री फुले स्कुल तथा नगरपालिका की सीमा होते हुए वापस रिटर्न होते हुए

		नहर के उपर कोठारिया रोड वाली शिव नगर की संपूर्ण बस्ती तथा आनन्द नगर होतु हुए भट्टे के मकानो को लेते हुए श्रीजी पब्लिक स्कूल के पास वाले मकानो को लेते हुए तथा लालबाग चौराहे पर नहर के उपर प्रेमजी माली की वाटिका तथा होटल को शामिल कर चौराहे तथा नहर के उस पार शिव नगर, आनन्द नगर को शामिल करते हुए यह वार्ड समाप्त होगा। (इस वार्ड में विनायक विहार, अरिहन्त प्लाजा, सोनल गैस एजेन्सी, उदासीण धुणी सावित्री फुले स्कूल बांदरिया मंगरा तथा लालबाग चौराहा, शिव नगर, प्रेम जी माली की वाटिका, आनन्द नगर, श्रीजी पब्लिक स्कूल सम्मिलित है।)
39.	39	नाथद्वारा नगरपालिका का वार्ड नं0 39 लालबाग चौराहे के नहर के नीचे वाली कॉलोनी, फ्रेण्ड्स कॉलोनी पूरी शामिल करते हुए नाकोडा नगर, नहर के प्रवेश से दायीं तरफ वाली पूरी कॉलोनीयां हाईवे से कैलाश कार बाजार गोकुलधाम होटल तथा इसके पीछे आस-पास की बस्ती एवं हाईवे पर दिव्या होण्डा तथा झंकार के पीछे की बस्ती एवं पेपर मिल नगरपालिका की सीमा को शामिल करते हुए पीछे से शिव नगर के पीछे तक के एरिये को शामिल करते हुए वापस वृन्दावन बाग को शामिल करते हुए वापस दायीं तरफ की लाईन हाईवे से महावीर कॉलोनी, राजपुत छात्रावास एवं आस-पास की बस्ती को लेते हुए बद्रीलाल सोमानी के मकान वाली गली, अजय शुक्ला के घर वाली लाईन, अम्बालाल लोढा के भुखण्ड तक तथा आगे आकर दाये मुडकर रेखा हॉस्पिटल के सामने की लाईन को लेते हुए सडक के सहारे सीधे सीधे चलते हुए आगे चलकर दाये मुडकर मदन लाल टांक के मकान की बस्ती एवं बीजलाई बस्ती तथा आगे चलकर तलीया भील बस्ती को सम्मिलित करते हुए यह वार्ड समाप्त होगा। (इस वार्ड में फ्रेण्ड्स कॉलोनी, नाकोडा दिव्य होण्डा, पेपर मिल, वृन्दावन बाग, महावीर कॉलोनी तथा इसके आगे सीधे-सीधे चलकर दायीं तरफ मुडकर रेखा हॉस्पिटल के सामने की तरफ के मकानों को लेते हुए आगे चलते हुए मदनलाल टांक का मकान को लेते हुए दाये हाथ की बस्ती को लेते हुए बिजलाई बस्ती तथा सीधे चलते हुए तलिया बस्ती को लेते हुए वृन्दावन बाग के पीछे वाला बाग का एरिया सम्मिलित है।)
40.	40	नाथद्वारा नगरपालिका का वार्ड नं0 40 धारचा से प्रारम्भ भील बस्ती का खेडा तलिया के आस-पास की बस्ती भलावतों का खेडा की पूरी बस्ती को शामिल कर आटा फेक्ट्री की बस्ती मुख्यमंत्री जन आवास का क्षेत्र खेडलिया की भागल होते हुए पानेरियों की मादडी सीमा तक सीवरेज प्लांट गिरीराज परिक्रमा हॉस्पिटल कृषि मण्डी गोकुल ट्युरिस्ट बंगला, डॉक्टर्स कॉलोनी होते हुए लालबाग पर यह वार्ड समाप्त होगा। (इस वार्ड में धारचा भील बस्ती, भलावतों का खेडा, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट चिकित्सालय, आरटीडीसी दामोदर स्टेडियम सम्मिलित है।)

आयुक्त  
नगरपालिका नाथद्वारा

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।